

ओन्टारियो के सबसे पुराने टाउनशिप में से एक है और सन 1700 से इसका इतिहास है। यहाँ आपको दोनों ऐतिहासिक घरों और अति आधुनिक घर दोनों मिल जाएंगे। आगस्टा समुदाय में अल्गोंकुइन (Algonquin), डोमविल, मैटलैंड, मेनार्ड, नार्थ आगस्टा, और रीबैक शामिल हैं। अल्गोंकुइन (Algonquin) शांतिपूर्ण आवासीय समुदाय है और यहाँ टाउनशिप का पुस्तकालय है। डोमविल प्रेस्कट के उत्तर में स्थित ग्रामीण बस्ती है और यहाँ समुदायिक पार्क है। मैटलैंड नदी के तट पर बसा समुदाय है जो अपनी मनोरंजन सुविधा (MERC) और स्की ट्रेल्स के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के आकर्षणों में होमवुड संग्रहालय, ब्लू चर्च, प्वाइंट बारिल, एन्टीक व्हील इन मोशन और उत्तरी आगस्टा श्रम दिवस समारोह शामिल हैं।



टाउनशिप ऑफ आगस्टा (Township of Augusta) में कुछ बड़े उद्योग हैं जैसे अल्ट्रामार मैटलैंड टर्मिनल (Ultramar Maitland Terminal), नाइट्रोकेम (Nitrochem), प्रैक्स एयर (Prax-Air), ई.आई. डु पोंट कैनडा कंपनी (E.I. du Pont Canada Company), इन्विस्टा कैनडा (Invista Canada) और केमिरा केमिकल्स (Kemira Chemicals)। आगस्टा में अनेक छोटे कारोबार और कृषिगत परिचालन का केन्द्र है। आगस्टा में बिजनेस पार्क राजमार्ग 401 के पास काउंटी 2 रोड पर स्थित है, यह स्थिति बेहद अनुकूल है। छोटे व्यवसायों बढ़ती हुई संख्या आगस्टा टाउनशिप को अपना केन्द्र बना रही हैं। अनेक व्यावसायिक क्षेत्रों के उद्यमी इस क्षेत्र के शांत वातावरण से आकर्षित होकर इसकी ओर रुख कर रहे हैं।

कुल जनसंख्या 7,353 (Statistics Canada Census 2016)

जनवरी माह के मध्य तापमान -8 °C (27 °F)

जुलाई माह के मध्य तापमान 26 °C (70 °F)

औसत वार्षिक वर्षा 784 mm rain, 198 cm snow

प्रति व्यक्ति आय \$87,782

औसत घरेलू आय \$105,966

औसत बेरोजगारी दर 5-6 %

दसवीं कक्षा तक पढ़े वयस्क 1,815

कॉलेज या विश्वविद्यालय डिप्लोमा तक पढ़े वयस्क 3,430

औसत 2 बेडरूम के मासिक अपार्टमेंट किराये की लागत \$1,169

औसत 3 बेडरूम अलग बंगला: \$287,579



अधिक जानकारी

Ray Morrison, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
आगस्टा

3560 County Road, 26, RR 2 Prescott, ON KOE ITO Canada
613-925-4231 / rmorrison@augusta.ca